



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 302) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

##### अधिसूचना

17 दिसम्बर 2013

सं0 1654—जमुई जिलान्तर्गत ग्राम+पो0—कुमार, थाना—सिकन्दरा स्थित माँ नेतुला मंदिर एक सार्वजनिक हिन्दु धार्मिक न्यास है। इस न्यास का निबंधन सं0— 4192/12 है।

माँ नेतुला मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक दिनांक 17/10/12 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा, जमुई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पर्षद को समर्पित की गयी। तत्पश्चात पर्षदीय पत्रांक—396, दिनांक 31/05/13 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा, जमुई से इस धार्मिक न्यास की स्थिति एवं इसके सम्यक संचालन हेतु मंतव्य के साथ प्रतिवेदन भेजने का आग्रह किया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा, जमुई ने अपने पत्रांक—286, दिनांक 04/07/13 द्वारा सूचित किया कि माँ नेतुला मंदिर, कुमार का संचालन वैधानिक ढंग से किया जा रहा है, इसलिए इसका ट्रस्ट बनाया जा सकता है।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप-विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **माँ नेतुला मंदिर, ग्राम+पो0— कुमार, थाना— सिकन्दरा, जिला— जमुई** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

##### योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“माँ नेतुला मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पो0— कुमार, थाना— सिकन्दरा, जिला— जमुई”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“माँ नेतुला मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पो0—कुमार, थाना—सिकन्दरा, जिला—जमुई”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक 17/10/12 को आयोजित आम सभा में ग्यारह सदस्यों की प्रस्तावित कार्यकारिणी समिति को अनुमोदित करते हुए, पर्षद द्वारा निरूपित इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा, जमुई	—	अध्यक्ष
(2) अंचलाधिकारी	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री हरदेव सिंह	—	कार्यकारी अध्यक्ष
(4) श्री कृष्णानंदन सिंह	—	सचिव
(5) थाना प्रभारी, सिकन्दरा थाना, जमुई	—	संयुक्त सचिव
(6) श्री भुनेश्वर सिंह	—	संयोजक
(7) श्री शशि भुषण कुमार	—	अंकेक्षक
(8) श्री उमा शंकर सिंह	—	कोषाध्यक्ष
(9) श्री रामाश्रय सिंह	—	सदस्य
(10) श्री सुधीर कुमार	—	सदस्य
(11) श्री नारायण कुमार	—	सदस्य ।

(12) उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 302-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>